



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 683 राँची, सोमवार,

26 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 अगस्त, 2019

संख्या:- 16/प्र०सु०-02-05/2014 का. 6512-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5637 दिनांक-25.06.2015 द्वारा झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 का गठन किया गया है।

2. उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार "आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों/अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा बशर्ते ऐसे कर्मी नियुन्तम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किये गये हैं। इसमें संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम हो, तो सम्बन्धित कार्यालय/विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति का अभिलेखन अनुरक्षित करेंगे।"

3. साथ ही उक्त नियमावली के नियम-16 के अनुसार "किसी उपबन्ध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अन्तिम होगा।"
4. चूँकि जिलों में अभियोजन सम्बर्ग के पदाधिकारी जिला न्यायमण्डल के द्वारा निर्धारित कार्यावधि के अनुरूप कार्य करते हैं। अतः इस सम्बर्ग को उक्त नियमावली के नियम-5 के अन्तर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त किया जाता है।
5. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

सुनीत कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
